





8. एक पाइप एक टैंक को  $x$  घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे  $y$  घंटों में खाली कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं? ( $y > x$ )

(a)  $\frac{xy}{y-x}$

(b)  $\frac{xy}{x-y}$

(c)  $y-x$

(d)  $x-y$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर-(a)

**व्याख्या—** पहले पाइप द्वारा एक घंटे में भरा भाग =  $\frac{1}{x}$

दूसरे पाइप द्वारा एक घंटे में खाली किया गया भाग =  $\frac{1}{y}$

$$\therefore 1 \text{ घंटे में दोनों पाइप को साथ खोलने पर भरा भाग} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$$

$$= \frac{y-x}{xy}$$

$$\therefore \text{टैंक को भरने में लगा समय} = \frac{1}{\frac{y-x}{xy}} \Rightarrow \frac{xy}{y-x}$$

9. एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

(a) 30 घंटे

(b) 36 घंटे

(c) 40 घंटे

(d) 44 घंटे

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर-(b)

**व्याख्या—** दोनों नलों को एक साथ खोलने पर

$$1 \text{ घंटे में हौज का भरा भाग} = \frac{1}{12} - \frac{1}{18}$$

$$= \frac{3-2}{36} = \frac{1}{36} \text{ भाग}$$

$$\therefore \text{हौज का } \frac{1}{36} \text{ भाग भरता है } 1 \text{ घंटे में।}$$

$$\therefore \text{हौज का पूरा भाग भरने में लगा समय} = 1 \times \frac{36}{1} \Rightarrow 36 \text{ घंटा}$$

**Trick**

$$\text{हौज को पूरा भरने में लगा समय} = \frac{xy}{y-x}$$

$$= \frac{12 \times 18}{18-12} = \frac{12 \times 18}{6} \Rightarrow 36 \text{ घंटा}$$

10. A, B तथा C तीन नलियां एक टंकी से संबद्ध हैं। A तथा B एक साथ उस टंकी को 6 घंटों में भर सकती हैं, B तथा C उसे 10 घंटों में और A तथा C उसे  $7\frac{1}{2}$  घंटों में भर सकती हैं। तदनुसार, अकेली C उस टंकी को कितने समय में भर सकती है?

(a) 10 घंटे

(b) 12 घंटे

(c) 20 घंटे

(d) 30 घंटे

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर-(d)

**व्याख्या—** (A + B) नलियों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग =  $\frac{1}{6}$

$$(B+C) \text{ नलियों द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग} = \frac{1}{10}$$

$$(C+A) \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग} = \frac{1}{7\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{2}{15}$$

$$\therefore (A+B)+(B+C)+(C+A) \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में टंकी का भरा गया भाग} \\ = \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{2}{15} \\ = \frac{10+6+8}{60} \Rightarrow \frac{24}{60}$$

$$\text{या } 2(A+B+C) \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग} = \frac{24}{60} \Rightarrow \frac{1}{5}$$

$$\therefore A+B+C \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग} = (A+B+C) \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग}$$

$$(A+B) \text{ द्वारा } 1 \text{ घंटे में भरा गया भाग} = \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{30}$$

अतः C नली टंकी को 30 घंटे में भरेगी।

11. एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव न हो तो पाइप A और B टैंक को अलग-अलग क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप खुले हों, तो टैंक कितने समय में भरेगा?

(a) 30 मिनट

(b) 60 मिनट

(c) 23 मिनट

(d) 35 मिनट

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2004

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2004, 2013

S.S.C. F.C.I. (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर-(a)

**व्याख्या—** पाइप A द्वारा 1 मिनट में टैंक का भरा भाग =  $\frac{1}{15}$

पाइप B द्वारा 1 मिनट में टैंक का भरा भाग =  $\frac{1}{20}$





**व्याख्या—** ∵ तीन नलिकाओं द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग =  $\frac{1}{6}$

∴ तीन नलिकाओं द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग =  $\frac{2}{6} \Rightarrow \frac{1}{3}$

शेष कार्य =  $1 - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}$

A तथा B द्वारा 8 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{2} \text{ भाग}$$

$$= \frac{2}{3}$$

∴ A तथा B द्वारा टंकी को भरने में लगा समय =  $8 \times \frac{3}{2} \Rightarrow 12$  घंटे

∴ C द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग = (A + B + C) द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग – (A + B) द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{1}{6} - \frac{1}{12}$$

$$= \frac{2-1}{12} \Rightarrow \frac{1}{12}$$

अतः C नलिका टंकी को 12 घंटे में भरेगी।

19. एक टंकी को दो नलियों A तथा B द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद A को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। तदनुसार, A को कितने समय (मिनटों में) बाद बंद किया गया था?
- (a) 9      (b) 12      (c) 6      (d) 8

S.S.C. मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

**व्याख्या—** माना x मिनट बाद A को बंद कर दिया जाता है। अब प्रश्न से—

$$\frac{x}{20} + \frac{18}{30} = 1$$

$$\frac{x}{20} = 1 - \frac{18}{30}$$

$$x = \frac{12}{30} \times 20 \Rightarrow 8 \text{ मिनट}$$

प्रकार-3

### कार्य क्षमता-आधारित

20. एक तरण ताल तीन पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले दो पाइप ताल को उत्तरे समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे?

- (a) 3 घंटे      (b) 3.75 घंटे  
 (c) 4 घंटे      (d) 4.75 घंटे

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

**व्याख्या—** माना दूसरे पाइप से तरण ताल को भरने में लगा समय = x घंटे

∴ पहले पाइप द्वारा तरण ताल को भरने में लगा समय = x + 5 घंटे तथा तीसरे पाइप द्वारा भरने में लगा समय = x - 4 घंटे

प्रश्नानुसार

एक घंटे में पहले दो पाइपों द्वारा भरा भाग = तीसरे पाइप द्वारा एक घंटे में भरा भाग

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{x-4}$$

$$\frac{x+5+x}{x(x+5)} = \frac{1}{(x-4)}$$

$$(2x+5)(x-4) = x^2 + 5x$$

$$2x^2 - 8x + 5x - 20 = x^2 + 5x$$

$$x^2 - 8x - 20 = 0$$

$$x^2 - 10x + 2x - 20 = 0$$

$$x(x-10) + 2(x-10) = 0$$

$$\therefore (x-10)(x+2) = 0$$

$$x = 10$$

∴ दूसरे तथा तीसरे पाइप द्वारा मिलकर एक घंटे में ताल का

$$\text{भरा गया भाग} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10-4}$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{6} = \frac{16}{60} \Rightarrow \frac{4}{15}$$

$$\therefore \text{ताल को भरने में लगा समय} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{15}{15}} = 3.75 \text{ घंटे}$$

21. एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में तीन गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लें, तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा?

- (a) 1 घंटा 21 मिनट      (b) 1 घंटा 48 मिनट  
 (c) 2 घंटे      (d) 2 घंटा 24 मिनट

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

**व्याख्या—** माना कि धीमी रफ्तार वाला पाइप टैंक को t मिनट में भरता है।

∴ तेज रफ्तार वाला पाइप इसे  $\frac{t}{3}$  मिनट में भरेगा।

प्रश्नानुसार

$$\frac{1}{t/3} + \frac{1}{t} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{3}{t} + \frac{1}{t} = \frac{1}{36}$$

$$\frac{4}{t} = \frac{1}{36}$$

$$t = 36 \times 4 \Rightarrow 144 \text{ मिनट}$$

$$= 2 \text{ घंटा } 24 \text{ मिनट}$$





(c) 1 अपराह्न

(d) 11 पूर्वाह्न

S.S.C. ऑफिसर्स C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

**व्याख्या—** नल A द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया

$$\text{भाग} = \frac{1}{20}$$

नल B द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग =  $\frac{1}{24}$

नल A और B द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग =  $\frac{1}{20} + \frac{1}{24}$

$$= \frac{6+5}{120} = \frac{11}{120} \text{ भाग}$$

नल A और B द्वारा 10 घंटे में भरा गया भाग

$$= \frac{11 \times 10}{120} = \frac{11}{12} \text{ भाग}$$

$$\text{शेष काम} = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \text{ भाग}$$

नल B द्वारा 1 भाग भरा जाता है = 24 घंटे में

नल B द्वारा  $\frac{1}{12}$  भाग भरा जाता है =  $24 \times \frac{1}{12} = 2$  घंटे में

अतः नल A को 2 घंटे पहले अर्थात्  $(5 - 2) = 3$  पी.एम. पर बंद कर देना चाहिए।

**Trick—** माना नल A को टंकी भरने से  $x$  घंटे पहले बंद किया जाता है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{12-x}{20} + \frac{12}{24} = 1$$

[∴ सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कुल समय = 12 घंटे]

$$\frac{12-x}{20} = \frac{1}{2}$$

$$x = 2 \text{ घंटे}$$

अतः नल A को 2 घंटे पहले अर्थात् 3 पी.एम. पर बंद कर देना चाहिए।

29. दो नल A तथा B, एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 पूर्वाह्न (ए.एम.) पर खोला जाए, तो ठीक 4 अपराह्न (पी.एम.) पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल A को कितने बजे (अपराह्न में) बंद कर देना चाहिए?

(a) 2  
(c) 1

(b) 3  
(d) 1:30

S.S.C. ऑफिसर्स C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(b)

**व्याख्या—** माना टंकी की कुल क्षमता = 60 ली. है।

$$\therefore A \text{ एक घंटे में भरेगी} = \frac{60}{10} \Rightarrow 6 \text{ ली.}$$

$$\text{तथा नल B एक घंटे में भरेगी} = \frac{60}{12} \Rightarrow 5 \text{ ली.}$$

$$\therefore \text{दोनों नल 1 घंटे में भरेगी} = (6 + 5) \text{ ली.} \Rightarrow 11 \text{ ली.}$$

6 घंटे (10 से 4) में नल भरेंगे =  $6 \times 11 \Rightarrow 66$  ली.

अतः स्पष्ट है कि नल A को 1 घंटा पहले अर्थात् 3 बजे बंद करना पड़ेगा।

**Trick—**

माना नल A को  $x$  घंटा पहले बंद कर दिया गया

अतः प्रश्नानुसार-

$$\frac{6-x}{10} + \frac{6}{12} = 1 \quad (\because 10 \text{ ए.एम. से } 4 \text{ पी.एम.} = 6 \text{ घंटा})$$

$$\frac{6-x}{10} = 1 - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$x = 6 - 5 \Rightarrow 1$$

अतः नल A को  $4 - 1 = 3$  बजे अपराह्न बंद कर देना चाहिए।

30. दो पाइप X तथा Y एक खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप Z अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप X तथा Y को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात पाइप Z को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय (घंटों में) लगेगा?

- (a) 80/7  
(c) 28/3
- (b) 67/7  
(d) 304/29

S.S.C. ऑफिसर्स CHSL (T-1) 11 मार्च, 2018 (I-पार्टी)

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2008

उत्तर-(d)

**व्याख्या—** माना टंकी को पूरा भरने में  $t$  घंटा लगता है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{t}{16} + \frac{t}{20} - \frac{t-6}{25} = 1$$

$$\frac{t}{16} + \frac{t}{20} - \frac{t}{25} = 1 - \frac{6}{25}$$

$$\frac{t(25+20-16)}{400} = \frac{19}{25}$$

$$\frac{t \times 29}{400} = \frac{19}{25}$$

$$t = \frac{19 \times 16}{29} \Rightarrow \frac{304}{29} \text{ घंटा}$$

31. पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय (घंटों में) में भरेगी?

- (a)  $\frac{269}{11}$   
(c)  $\frac{179}{7}$
- (b)  $\frac{280}{11}$   
(d)  $\frac{172}{7}$

S.S.C. ऑफिसर्स CHSL (T-I) 4 मार्च, 2018 (I-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. मल्टी टॉस्टिंग परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)



**व्याख्या—** खाली तालाब को उसके  $\frac{3}{5}$  भाग भरे जाने में लगा समय  
 $= 8 \text{ घंटा}$

$\therefore$  खाली तालाब को भरने में लगा कुल समय  $= \frac{8 \times 5}{3} \Rightarrow \frac{40}{3}$   
 $= 13 \text{ घंटा } 20 \text{ मिनट}$

$\therefore$  पूरे तालाब को भरने में लगा शेष समय  
 $= 13 \text{ घंटा } 20 \text{ मिनट} - 8 \text{ घंटा}$   
 $= 5 \text{ घंटा } 20 \text{ मिनट}$

35. एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का  $\frac{2}{3}$  भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा  $15 \frac{1}{2}$  मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें, तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा—

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

### उत्तर—(a)

**व्याख्या**— भरने वाले पाइप से 1 मिनट में भरा भाग =  $\frac{1}{40}$

खाली करने वाले पाइप से 1 मिनट में खाली भाग =  $\frac{1}{60}$

खाली करने वाले पाइप से 15 मिनट में खाली भाग

$$= \frac{15}{60} = \frac{1}{4} \text{ भाग}$$

∴ टैंक का  $\frac{2}{3}$  भाग भरा था।

$\therefore$  खाली करने वाले नल को खोलने पर 15 मिनट बाद टैंक का भरा भाग  $= \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

$$= \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12} \text{ भाग}$$

$\therefore$  15 मिनट बाद टैंक का खाली भाग  $= 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} \text{ भाग}$

$\therefore$  भरने वाला पाइप,  $\frac{1}{40}$  भाग भरता है 1 मिनट में।

$\therefore$  भरने वाला पाइप,  $\frac{7}{12}$  भाग भरेगा  $= 40 \times \frac{7}{12}$

$$= \frac{280}{12} \Rightarrow 23\frac{1}{3} \text{ मिनट में}$$

- 36.** एक टंकी की तली में एक छेद है, जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफतार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है।

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

### **उत्तर—(d)**

**व्याख्या**— माना पानी भरने वाला नल टंकी को  $x$  घंटे में भरेगा।  
**प्रश्नानुसार**

$$\frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{3-2}{30} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{30} = \frac{1}{x}$$

$$x = 30 \text{ घंटा}$$

अतः भरने वाला नल टंकी को 30 घंटे में भर देगा।

$$30 \text{ घंटा} = 30 \times 60 = 1800 \text{ मिनट}$$

$$\therefore \text{टंकी की धारिता} = 4 \times 1800 \Rightarrow 7200 \text{ लीटर}$$



SSC \_\_\_\_\_ 3836

उत्तर-(b)

**व्याख्या—** पहला तथा दूसरा पाइप एक साथ एक घंटे में खोलने पर टैंक का भरा भाग  $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

$$1 \text{ घंटे में तीसरे पाइप द्वारा टंकी का खाली भाग} = \frac{5}{6} - \frac{7}{12}$$

$$= \frac{10 - 7}{12}$$

$$= \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{ भाग}$$

$\therefore \frac{1}{4}$  भाग खाली होता है 1 घंटे में।

$$\therefore \text{पूरा भाग खाली होगा} = 1 \times \frac{4}{1} \Rightarrow 4 \text{ घंटे में}$$



43. 200 मी. लंबे और 150 मी. चौड़े एक टैंक में, 0.3 मी.  $\times$  0.2 मी. आकार वाली एक नली से 20 किमी./घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार, उस टैंक में पानी का तल 8 मी. ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा?
- (a) 50 (b) 120  
(c) 150 (d) 200

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर-(d)

**व्याख्या—** टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने पर पानी का आयतन =  $200 \times 150 \times 8$

दिया है

$$\text{नली का क्षेत्रफल} = (0.3 \times 0.2) \text{ वर्ग मीटर}$$

$$\text{पानी की चाल} = 20 \text{ किमी./घंटा}$$

$$= 20000 \text{ मी./घंटा}$$

$$\therefore \text{टंकी में 1 घंटे में पाइप द्वारा भरे गए पानी का आयतन} \\ = 0.3 \times 0.2 \times 20000 \\ = 1200 \text{ घन मी.}$$

$\therefore$  टंकी को 8 मी. ऊंचाई तक भरने में लगा समय

$$= \frac{200 \times 150 \times 8}{1200} \Rightarrow 200 \text{ घंटा}$$

44. तीन नल P, Q तथा R अलग-अलग किसी हौज को क्रमशः 4, 8 तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल S पूरे भरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सी युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी?

- (a) केवल Q को खोला जाए  
(b) P तथा S को खोला जाए  
(c) P,R तथा S को खोला जाए  
(d) P,Q तथा S को खोला जाए

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

उत्तर-(d)

**व्याख्या—** नल P,Q,S को एक साथ खोले जाने पर हौज का भरा भाग

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} = \frac{11}{40}$$

अतः P,Q,S को एक साथ खोले जाने पर हौज  $\frac{40}{11}$  घंटे में भर जाएगा।

45. यदि दो नलियां एक साथ चारू हों, तो एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है। तदनुसार, वह तेज गति वाली नली अकेली, उस टंकी को कितने घंटों में भर देगी?

- (a) 20 (b) 18  
(c) 15 (d) 12

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर-(a)

**व्याख्या—** माना तेज नली की गति =  $x$

$\therefore$  दूसरी नली की गति =  $x + 10$

प्रश्नानुसार

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{x+10+x}{x^2+10x} = \frac{1}{12}$$

$$(2x+10) \times 12 = x^2 + 10x$$

$$24x + 120 = x^2 + 10x$$

$$\therefore x^2 - 14x - 120 = 0$$

$$\therefore x^2 - (20 - 6)x - 120 = 0$$

$$x(x-20) + 6(x-20) = 0$$

$$(x-20)(x+6) = 0$$

$$\text{यदि } x-20 = 0 \quad \text{यदि } (x+6) = 0$$

$$\therefore x = 20 \quad \therefore x = -6 \text{ (अमान्य)}$$

अतः तेज गति की नली टंकी को 20 घंटे में अकेले भर देगी।

46. निम्न में कौन-सी नलियां एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकती हैं?

(1) 60 सेमी.. व्यास वाली एक नली

(2) प्रत्येक 30 सेमी.. व्यास वाली दो नलियां

(3) प्रत्येक 20 सेमी.. व्यास वाली तीन नलियां

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) इनमें से कोई नहीं

S.S.C. मल्टी टॉर्सिंग परीक्षा, 2013

उत्तर-(a)

**व्याख्या—** 60 सेमी.. व्यास वाली बेलनाकार नली 1 सेकंड में एक पोखर का खाली किया गया भाग =  $\pi r^2 h$

$$= \pi \left( \frac{60}{2} \right)^2 h$$

$$= \pi (30)^2 h$$

$$= 900 \pi h \dots\dots (i)$$

30 सेमी.. व्यास वाली दो नलियों द्वारा खाली किया गया भाग

$$= 2 \times \pi \left( \frac{30}{2} \right)^2 h$$

$$= 2 \times \pi \times 225 \times h = 450 \pi h \dots\dots (ii)$$

20 सेमी.. व्यास की तीन नलियों द्वारा खाली किया गया भाग

$$= 3 \times \pi \times \left( \frac{20}{2} \right)^2 h$$

$$= 3\pi h \times 100$$

$$= 300\pi h \dots\dots (iii)$$

अतः सभी. (i), (ii) और (iii) से स्पष्ट है कि 60 सेमी.. व्यास की नली पोखर को जल्दी खाली कर देगी।